



# परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास



# परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

## 1. कोयला संरक्षण

कोयले का संरक्षण एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, विशेष रूप से जब हमारे कोयला भंडार सीमित हैं। योजना चरण से ही कोयले के संरक्षण के पहलू को ध्यान में रखा जाता है और कार्यान्वयन चरण के दौरान अधिकतम रिकवरी सुनिश्चित की जाती है। खानों को तकनीकी व्यवहार्यता और आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर ओपनकास्ट अथवा भूमिगत पद्धतियों के माध्यम से कोयला सीमों के कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है।

इस समय उथली गहराई पर मोटी सीमों के निष्कर्षण के लिए मशीनीकृत ओपनकास्ट (ओसी) खनन सामान्यतः अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी है। यह संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस प्रौद्योगिकी द्वारा प्रतिशत रिकवरी लगभग 80% से 90% है। वर्तमान में, यह प्रौद्योगिकी कोयला उद्योग पर हावी है और देश के कोयला उत्पादन में 96% से अधिक का योगदान देती है। इसके अतिरिक्त, जब कभी व्यवहार्य होता है, भूमिगत खानों के विकसित खंभे भी ओपनकास्ट प्रचालनों के माध्यम से निकाले जा रहे हैं।

लांगवाल विधि, शार्टवाल विधि, हाईवाल खनन और सतत खनिक प्रौद्योगिकी जैसी नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के परिणामस्वरूप भूमिगत खनन (यूजी) में निष्कर्षण की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है।

मशीनीकृत बोल्टिंग और राल कैप्सूलों के साथ रुफ सपोर्ट टेक्नोलॉजी में सुधार से व्यापक गैलरी स्पैन को बनाए रखना और खराब छत की परिस्थितियों में अधिक कुशलता से सीम निकालना संभव हो गया है जिसके परिणामस्वरूप कोयले के संरक्षण में सुधार हुआ है।

## 2. रेत भराई

भूमिगत खानों में रेत भराई कोयला संरक्षण का एक और प्रभावी साधन है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से निर्मित क्षेत्रों के नीचे स्थित भूमिगत कोयला सीमों से कोयला खंभों को निकालने के लिए किया जाता है, जैसे कि महत्वपूर्ण सतही संरचनाएं, रेलवे लाइनें, नदियां, नाला, आदि, जिसके परिणामस्वरूप अन्यथा खंभों में कोयला फंस जाता। रेत भराई कई लिफ्टों में मोटी सीम के निष्कर्षण में भी मदद करता है, जिससे निष्कर्षण का प्रतिशत बढ़ जाता है। रेत की कमी के कारण, रेत के विकल्प के रूप में भूमिगत खानों में रेत भराई के लिए फलाई ऐश, बॉयलर ऐश, क्रश्ड ओवरबर्डन सामग्री आदि जैसी अन्य सामग्रियों का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रयोगात्मक परीक्षण किए जा रहे हैं। वर्तमान में, क्रश्ड ओवरबर्डन सामग्री का उपयोग भूमिगत कोयला खानों में रेत भराई उद्देश्यों के लिए व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है जहां खान के निकट के क्षेत्र में रेत उपलब्ध नहीं है या दूर नदी स्रोतों से रेत का परिवहन करना महंगा है।

## 3. परिवहन अवसंरचना का संरक्षण और विकास

कोयला नियंत्रक कोलियरी नियंत्रण (संशोधन) नियम, 2021 के तहत गठित कोयला संरक्षण और विकास सलाहकार समिति (सीसीडीएसी) के सदस्य सचिव के रूप में कार्य करता है। कोयला नियंत्रक का कार्यालय सीसीडीएसी के माध्यम से निधियां जारी करने के लिए कोलफील्ड क्षेत्रों में संरक्षात्मक कार्य, वैज्ञानिक विकास कार्यों, सड़क और रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं के संबंध में कोयला कंपनियों से प्रक्रियाएं प्राप्त करता है और उनकी जांच करता है। निधि की स्थिति निम्नानुसार है:

## वर्ष 2024–25 में निधियों के संवितरण की स्थिति कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा

क्र. सं.	विवरण	सामान्य (73.10%)	पूर्वोत्तर (10%)	टीएसपी (8.60%)	एससी (8.30%)	कुल (करोड़ में)
1	आवंटित निधि 2024–25 (संशोधित अनुमान)	1.12	1.08	1.72	6.87	10.79
2	पिछले वर्ष से अनुमोदित दावा राशि पर स्पिल ओवर	6.15	0	5.19	17	28.34
3	2023–24 में स्वीकृत दावा राशि	0	1.96	0	0	1.96
<b>कुल राशि (2+3)</b>		<b>6.15</b>	<b>1.96</b>	<b>5.19</b>	<b>17.00</b>	<b>30.30</b>
<b>2024–25 में वितरित (दिसंबर 2024 तक)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.72</b>	<b>6.87</b>	<b>8.59</b>

### कोलफील्ड्स में परिवहन अवसंरचना का विकास (डीटीआईसी)

क्र. सं.	विवरण	सामान्य (73.10%)	पूर्वोत्तर (10%)	टीएसपी (8.60%)	एससी (8.30%)	कुल (करोड़ में)
1	आवंटित निधि 2024–25 (संशोधित अनुमान)	0	3.87	25.76	9.08	38.71
2	पिछले वर्ष से अनुमोदित दावा राशि पर स्पिल ओवर	0	0	136.00	2.89	138.89
3	2023–24 में स्वीकृत दावा राशि	0	1.78	0	12.17	13.95
<b>कुल राशि (2+3)</b>		<b>0</b>	<b>1.78</b>	<b>136.00</b>	<b>15.06</b>	<b>152.84</b>
<b>2024–25 में वितरित (दिसंबर 2024 तक)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.76</b>	<b>9.08</b>	<b>34.84</b>

### वर्ष 2025–26 के लिए बजट और स्पिलओवर अनुमोदित राशि की स्थिति

कोयला मंत्रालय ने दो योजना स्कीमों के लिए वर्ष 2025–26 के बजट अनुमान (ब.अ.) की सूचना दी है जो निम्नानुसार है:

क्र. सं.	स्कीम का नाम	सामान्य (करोड़ में)	पूर्वोत्तर (करोड़ में)	एसटी (करोड़ में)	एससी (करोड़ में)	कुल (करोड़ में)
1.	कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	14.62	2.00	1.72	1.66	20.00
2.	कोलफील्ड्स में परिवहन अवसंरचना का विकास	52.63	7.20	6.19	5.98	72.00

### आज तक राशि का स्पिल ओवर

स्कीम	सामान्य (करोड़ में)	पूर्वोत्तर (करोड़ में)	एसटी (करोड़ में)	एससी (करोड़ में)	कुल (करोड़ में)
कोयला खानों में संरक्षण और सुरक्षा	0.00	0.00	1.75	0.00	1.75
कोलफील्ड्स में परिवहन अवसंरचना का विकास	0.00	0.00	70.99	0.00	70.99

### 4. कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल): रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं

भविष्य में उत्पादन और निकासी में नियोजित वृद्धि को प्राप्त करने के लिए, सीआईएल ने प्रमुख रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का निर्माण शुरू किया है। इन रेल अवसंरचना

परियोजनाओं का कार्यान्वयन या तो भारतीय रेल द्वारा (जमा आधार पर) अथवा रेलवे का प्रतिनिधित्व करने वाली इकॉनॉमी, सहायक कंपनी (सीआईएल का प्रतिनिधित्व करने वाली) और संबंधित राज्य सरकार वाली संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है। दो (02) प्रमुख रेल अवसंरचना



परियोजनाएं जमा आधार पर कार्यान्वित की जा रही हैं और चार (04) रेल अवसंरचना परियोजनाएं संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।

#### 4.1 जमा आधार

पूर्व मध्य रेलवे, पटना झारखण्ड में सीसीएल के उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र के लिए लगभग 44.37 किमी की लंबाई वाली टोरी शिवपुर नई बड़ी लाइन का निष्पादन कर रही है। पूरी लाइन का दोहरीकरण दिसंबर, 19 में शुरू किया गया था। -65 एमटीपीए से ~100 एमटीपीए तक अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए इस रेल लाइन की ट्रिपलिंग को दिनांक 01.03.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू और उद्घाटन किया गया है।

दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एमसीएल के आईबी वैली कोलफील्ड्स के लिए लगभग 52.41 किलोमीटर की लंबाई के साथ झारसुगुड़ा—बरपाली—सरदेगा रेल अवसंरचना परियोजना निष्पादित की है। यह लाइन अप्रैल—2018 में शुरू की गई थी। बरपाली में लोडिंग बल्ब के साथ इस रेल मार्ग का दोहरीकरण और रेल फ्लाईओवर कॉम्प्लेक्स सहित झारसुगुड़ा यार्ड की रीमॉडलिंग रेलवे लाइन की कोयला निकासी क्षमता, 34 एमटीपीए से 65 एमटीपीए तक बढ़ जाएगी। झारसुगुड़ा—बरपाली—सरदेगा रेल लाइन के दोहरीकरण को शुरू कर दिया गया है और 03.02.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। रेलवे द्वारा बारापाली में बल्ब और झारसुगुड़ा में फ्लाईओवर कॉम्प्लेक्स के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और इसके जून, 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है।

#### 4.2 संयुक्त उद्यम आधार

**झारखण्ड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल)**— 49.085 किमी लंबाई के शिवपुर—कठौतिया खण्ड का निष्पादन झारखण्ड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड (जेसीआरएल) नामक एक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किया जा रहा है जिसमें सीसीएल, इरकॉन और झारखण्ड राज्य सरकार इसके भागीदार हैं। मई, 22 में फाइनेंशियल क्लोजर प्राप्त किया गया। यह परियोजना निर्माणाधीन है और वर्तमान प्रगति लगभग 52% है और इसके जून, 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है।

**छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल लिमिटेड (सीईआरएल)**— एसईसीएल, इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी, दो चरणों में पूर्व रेल कॉरिडोर के निर्माण का कार्य कर रही है:

**चरण—I:** खरसिया—धरमजयगढ़ जिसमें गारे पालमा तक स्पर और लगभग 132 किमी की तीन फीडर लाइनें शामिल हैं। खरसिया से धर्मजयगढ़ (74 किमी), घरघोड़ा और भालूमुंडा के बीच स्पर लाइन (13.873 किमी) और फीडर लाइन से छाल (8.429 किमी) और बरौद (4.139 किमी) के बीच मुख्य रेल कॉरिडोर को शुरू कर दिया गया है और इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 14.09.2023 को किया गया है। फिलहाल इस नई बीजी रेलवे लाइन के जरिए कोयले की निकासी की जा रही है। भालूमुंडा और गारे पेलमा के बीच स्पर लाइन (17 किमी) का शेष कार्य प्रगति पर है और इसके जून, 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है।

**चरण-II:** धरमजयगढ़—कोरबा लगभग 62.5 किलोमीटर की लंबाई के साथ दिनांक 28.08.2023 को वित्तीय समापन हासिल कर लिया गया है। वर्तमान में, भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है। कुल शामिल निजी भूमि (290.698 हेक्टेयर) का अधिग्रहण किया गया है। इरकॉन द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस परियोजना के अगस्त, 2026 तक शुरू होने का अनुमान है।

**छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल लिमिटेड (सीईडब्ल्यूआरएल)**— एसईसीएल, इरकॉन और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा गठित एक संयुक्त उद्यम कंपनी, दीपका, कटघोरा, सिंदूरगढ़ और पासन के रास्ते पूर्व—पश्चिम रेल कॉरिडोर (गेवरा रोड से पेंड्रा) के निर्माण का कार्य कर रही है, जिसकी लंबाई लगभग 135 किलोमीटर है और लगभग 35 किलोमीटर की फीडर लाइनें हैं। इससे कोरबा कोलफील्ड्स से लगभग 65 एमटीपीए कोयले की निकासी हो सकेगी। रेल लाइनों के निर्माण के लिए निविदाएं दे दी गई हैं और निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान प्रगति लगभग 58% है और इसके दिसंबर, 2025 तक शुरू होने का अनुमान है।

**महानदी रेलवे लिमिटेड (एमसीआरएल)**— एमसीएल, इरकॉन और ओडिशा राज्य सरकार द्वारा गठित एक संयुक्त



ઉદ્યમ કંપની, કોયલે કી નિકાસી કો પૂરા કરને કે લિએ એમસીએલ કે તલચર કોલફીલ્ડોં મેં રેલવે અવસંચના પરિયોજનાઓં કે નિર્માણ કા નિષ્પાદન કર રહી હૈ | એમસીએલ કે તલચર કોલફીલ્ડ્સ મેં અંગુલ—બલરામ—જારપાડા—ટેન્ટુલોઈ લિંક જિસકી લંબાઈ 69.10 કિમી હૈ (જિસમે 14.22 કિમી લંબાઈ કા જારપાડા—કલિંગ—અંગુલ લિંક શામિલ હૈ) કો મંજૂરી દી ગઈ હૈ | પહોંચ ચરણ મેં, અંગુલ—બલરામ ખંડ, 14.22 કિમી શુરૂ કર દિયા ગયા હૈ | ઇસસે તલચર કોલફીલ્ડ સે લગભગ 15 એમટીપીએ કી નિકાસી ક્ષમતા સંભવ હો પાઈ હૈ | દૂસરે ચરણ મેં બલરામ—પુટાગડિયા—જારપાડા—તેનતુલોઈ રેલ લાઇન કે નિર્માણ કી યોજના હૈ | યહ પરિયોજના રેલ મંત્રાલય દ્વારા શુરૂ કી ગઈ હૈ |

#### 4.3 ફર્સ્ટ માઇલ કનેક્ટિવિટી પરિયોજનાએં

સીઆઈએલ ને ફર્સ્ટ માઇલ કનેક્ટિવિટી પરિયોજનાઓં કે અંતર્ગત મશીનીકૃત કોયલા પરિવહન ઔર લોડિંગ સિસ્ટમ કે ઉન્નયન કે લિએ કદમ ઉઠાએ હૈનું | યે અવસંચના પરિયોજનાએં કોયલે કી ગુણવત્તા મેં સુધાર, અંડર—લોડિંગ શુલ્ક મેં બચત ઔર પર્યાવરણ પર સકારાત્મક પ્રભાવ ડાલને મેં મદદ કરેંગી |

સીઆઈએલ ને કોયલે કી મશીનીકૃત લોડિંગ કે લિએ કુલ 94 ફર્સ્ટ માઇલ કનેક્ટિવિટી (એફએમસી) પરિયોજનાઓં કી યોજના બનાઈ ગઈ હૈ | અગસ્ત, 2019 સે પહોંચે 151 એમટીવાઈ ક્ષમતા વાળી 20 પરિયોજનાએં સ્થાપિત કી ગઈ થીનું | અગસ્ત, 2019 કે બાદ 837.5 એમટીવાઈ ક્ષમતા વાળી 74 પરિયોજનાઓં કી યોજના બનાઈ ગઈ થી | ઇનમાં સે 17 પરિયોજનાએં અબ તક શુરૂ કી ગઈ હૈનું | 24 પરિયોજનાએં નિર્માણધીન હૈનું ઔર 31 પરિયોજનાએં અનુમોદન કે વિભિન્ન ચરણોં મેં હૈનું |

ઇસ પ્રકાર, આજ તક, 37 એફએમસી પરિયોજનાએં શુરૂ કી ગઈ હૈનું ઔર શેષ પરિયોજનાએં વિત્ત વર્ષ 2028–29 તક શુરૂ હો જાએંગી |

#### પીએમ ગતિ શક્તિ સેલ ઔર ઇસકી કાર્યક્ષમતા:

પ્રધાનમંત્રી ને અક્ટૂબર, 2021 મેં અવસંચના કે વિકાસ કે લિએ ગતિ શક્તિ—રાષ્ટ્ર માસ્ટર પ્લાન કા શુભારંભ કિયા, જિસકા ઉદ્દેશ્ય વિભિન્ન મંત્રાલયોં કે એક સાથ લાના ઔર અવસંચના કનેક્ટિવિટી પરિયોજનાઓં કે એકીકૃત નિયોજન

ઔર સમન્વિત કાર્યાન્વયન કે લિએ હૈ | યહ વિભિન્ન મંત્રાલયોં ઔર રાજ્ય સરકારોં કે અવસંચનાત્મક યોજનાઓં કો શામિલ કરેગા ઔર સ્થાનિક નિયોજન ઉપકરણોં સહિત બઢે પૈમાને પર પ્રૌદ્યોગિકી કા લાભ ઉઠાએગા |

કોયલા મંત્રાલય ને પીએમ જીએસ—એનએમપી પોર્ટલ કે માધ્યમ સે અવસંચનાત્મક યોજના ઔર નિગરાની કે લિએ વિશેષતાઓં ઔર મેટા ડાટા કે સાથ મૈપ કિએ ગએ 100 સે અધિક ડાટા પરતોં કી પહ્યાન કી હૈ | ડાટા સ્તર યોજના ચરણ કે દૌરાન સંબંધિત મંત્રાલયોં કે સંસાધનોં કી એકીકૃત યોજના પ્રક્રિયા કો બઢ્યા હૈ | કોયલા ક્ષેત્ર મેં પીએમજીએસ માસ્ટર પ્લાન કે સંબંધ મેં અભી તક નિન્નલિખિત કાર્યક્લાપ કિએ ગએ હોયાં:

- કોલફીલ્ડ સીમાએં, કોયલા/લિંગનાઇટ બ્લોક (સીઆઈએલ, સીએમએસપી, એમએમડીઆર, એસસીસીએલ, એનએલસીઆઈએલ), કોયલા નિકાસી પ્રણાલી, રેલવે સાઇલ્ડિંગ કો સ્થાન, સીએચપી કો સ્થાન, સીઆઈએલ કે તહત વૉશરિયોં કો સ્થાન, એફએમસી પરિયોજનાએં, ભૂમિ પરિસંપત્તિ ડાટા (અધિગ્રહિત ભૂમિ, પ્લોટ, વન ભૂમિ, ગૈર—વન ભૂમિ, તકનીકી પુનરૂદ્ધાર, વૃક્ષારોપણ, ખનન અધિકાર સીમા), નીલામી કે તહત કોયલા બ્લોક, સીબીએમ બ્લોક, બોરહોલ સ્થાન, જીએસઆઈ ડાટા, ડ્રોન એકવાર્ડ ડાટા ઔર એનાલિટિક્સ આદિ કે લિએ વિભિન્ન ઉપકરણ |
- 'કોયલા ક્ષેત્ર મેં પીએમ ગતિ શક્તિ રાષ્ટ્રીય માસ્ટર પ્લાન' પર પુસ્તિકા કે પ્રકાશન
- પીએમજીએસ—એનએમપી પર કોયલા મંત્રાલય કે પૃષ્ઠ કે લિએ માનક સંચાલન પ્રક્રિયા (એસઓપી) તૈયાર કરના છે |

કોયલા મંત્રાલય ને ધીરોલી કોયલા બ્લોક સે ગુજરને વાળી પારેષણ લાઇન કે વૈકલ્પિક માર્ગ, કોયલા બ્લોકોં કે સાથ ઓવરલૈપિંગ સે બચને કે લિએ પેલમા—સરદેગા ઔર તેનતુલોઈ—બુધાપંક લાઇનોં કે વૈકલ્પિક રેલ સંરેખણ આદિ જૈસે મુદ્દોં કો હલ કરને કે લિએ પીએમજીએસ—એનએમપી પોર્ટલ કે ઉપયોગ કિયા હૈ | મંત્રાલય પીએમ ગતિશક્તિ એનએમપી પ્લેટફોર્મ પર ડેશબોર્ડ ઔર અનુપ્રયોગો કે વિકાસ કે માધ્યમ સે કોયલા ક્ષેત્ર કી પરિયોજનાઓં કી ખોજ સે લેકર યોજના ઔર નિષ્પાદન તક કોયલા સંસાધન કી મૂલ્ય શ્રુંખલા બનાને



तथा मंत्रालय के पोर्टल के साथ एकीकृत करने की भी इच्छा रखता है। कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की परियोजना रिपोर्ट का विश्लेषण कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत योजना हेतु पीएमजीएस—एनएमपी पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर किया जाता है।

## 5. एनएलसी इंडिया लिमिटेड:

### तालाबीरा—II और III ओसीपी (20 एमटीपीए):

सीएचपी, मशीनीकृत कन्वेयर सिस्टम और रैपिड लोडिंग साइलो का निर्माण एमडीओ के कार्यक्षेत्र में है और प्रगति पर है। कार्य पूरा होने की समय—सीमा जून—2025 है।

तालाबीरा—II और III ओसीपी में रेलवे साइलिंग का निर्माण प्रगति पर है। रेलवे साइलिंग कार्य को पूरा करने की अपेक्षित समय—सीमा जून—2025 है। रेलवे साइलिंग कार्य की वास्तविक प्रगति 37.5% है।

### पचवाड़ा साउथ कोल ब्लॉक (पीएससीबी) (9 एमटीपीए):

वर्तमान में, पचवाड़ा कोयला क्षेत्र के साथ कोई रेल कनेक्टिविटी नहीं है। कोयले को मैकेनाइज्ड कन्वेयर सिस्टम के माध्यम से पिटहेड कोयला स्टॉकयार्ड से रेलवे साइलिंग तक ले जाया जाएगा। कोयले को कम्प्यूटरीकृत रैपिड लोडिंग सिस्टम (साइलो) के माध्यम से रेलवे वैगन में लोड किया जाएगा और और इसकी ढुलाई घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट (जीटीपीपी), घाटमपुर, कानपुर नगर जिले में की जाएगी। पीएससीबी दुमका जिले में कुरवा स्टेशन (हावड़ा डिवीजन) में एक रेलवे साइलिंग विकसित कर रहा है, जिसके लिए जीसीटी नीति के तहत पूर्वी रेलवे द्वारा निर्माण के लिए अंतिम मंजूरी दी गई है। पीएमसी कार्य मैसर्स राइट्स को सौंप दिया गया है। यह निर्माणाधीन है। इसके मार्च, 2025 तक शुरू होने की उम्मीद है।

### उत्तरी धाढ़ू (पश्चिमी भाग)—(3एमटीपीए):

उत्तरी धाढ़ू (पश्चिमी भाग) में रेलवे साइलिंग स्थापित करने के लिए “एफएसआर, डीपीआर, डीई और पीएमसी” का काम देने के लिए 11.10.2023 को मैसर्स राइट्स को एलओए जारी किया गया था।

## 6. एससीसीएल

**रेत भराई :** सार्वजनिक भवनों, कॉलोनियों, रेल लाइनों, सार्वजनिक सड़कों आदि जैसी महत्वपूर्ण सतही विशेषताओं की सुरक्षा के लिए, भूमिगत गड्ढों/गोफ (कोयला निष्कर्षण के बाद) को नदी की रेत से भर दिया जाता है। रेत की भारी कमी के कारण, एससीसीएल खानों में रेत के विकल्प के रूप में भूमिगत खानों में रेत भराई के लिए बॉटम ऐश, बॉयलर ऐश और क्रशड ओवरबर्डन सामग्री आदि जैसी अन्य सामग्रियों का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रयोगात्मक परीक्षण किए जा रहे हैं।

### कोयला निकासी के लिए रेल और अवसंरचना परियोजना:

कोयले के तेज, सुरक्षित और पर्यावरण मुक्त परिवहन को आसान बनाने के लिए, 927.94 करोड़ रुपये की लागत वाली 54 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है और यह स्टेशन सरवरम, चंद्रगांडा और परधासराधि पुरम सहित जमा आधार पर भद्राचलम रोड को सत्तुपल्ली से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तुतः तेलंगाना के असंबद्ध क्षेत्रों और कोयला परिवहन की सुविधा के लिए दिनांक 12.11.2022 को रामागुंडम से नई बीजी रेल लाइन का उद्घाटन किया।

अगले 5 पांच वर्षों में कोयला उत्पादन और प्रेषण की नियोजित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, एससीसीएल कोयला निकासी के संबंध में निम्नलिखित उपाय कर रही है और एससीसीएल द्वारा अवसंरचना के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं—

**कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी):** 10 कोल हैंडलिंग प्लांट (सीएचपी) हैं। 70.5 मि.ट. की संचयी क्षमता के साथ एक वार्फ लोडिंग सिस्टम है जो रेल/एमजीआर सिस्टम द्वारा डिस्पैच करता है। 10 प्री—वेट वैगन लोडिंग सिस्टम है और 19 प्री—वेट ट्रक लोडिंग सिस्टम स्थापित हैं और विभिन्न खानों और कोयला हैंडलिंग संयंत्रों में काम कर रहे हैं।

ओडिशा में एससीसीएल को आवंटित नैनी कोयला ब्लॉक के लिए, 68 किमी की एमसीआरएल रेलवे लाइन का चरण—II

का कार्य पूरा किया जाना है। एससीआरएल रेलवे लाइन के पूरा होने तक, एससीसीएल अस्थायी आधार पर सड़क/रेल मोड द्वारा विभिन्न विकल्पों की योजना बना रहा है।

रेलावी लाइन के निर्माण के अलावा रेलवे साइडिंग और कोल हैंडलिंग प्लांट की व्यवस्था प्री-वेट वैगन लोडिंग सिस्टम, क्रशर और एप्रोच रोड/बीटी रोड/डामर रोड की स्थापना के लिए की जा रही है: कोयला परिवहन के लिए सड़कों का निर्माण और रखरखाव आवश्यकता के अनुसार किया जा रहा है।



जेवीआर ओसी सीएचपी और रेलवे लाइन— कोयला निकासी के लिए अवसंरचना का विकास:

### एफएमसी परियोजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है

एफएमसी परियोजना का नाम	क्षमता (एमटीपीए)	स्थिति
एसआरपी ओसी सीएचपी	3.50	13.01.2020 से प्रचालनात्मक और पूरी क्षमता से चल रही है।
जेवीआर सीएचपी	10.00	28.05.2022 से प्रचालनात्मक और पूरी क्षमता से चल रही है।
नैनी	10.00	<p><b>सीएचपी:</b> निविदा दस्तावेज सीएमपीडीआई से प्राप्त किए जाएंगे।</p> <p><b>साइडिंग (247.80 करोड़):</b> भूमि अधिग्रहण और साइडिंग के निर्माण के लिए पीएमसी 17.06.24 को मैसर्स राइट्स को सौंपा गया था।</p> <p><b>ईओडी :</b> 2026–27</p>
वीके सीएचपी	* 6.00	<p><b>सीएचपी:</b> निविदा दस्तावेज सीएमपीडीआई से प्राप्त किए जाएंगे।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>साइडिंग (114.33 करोड़):</b> ट्रैक लाइनिंग का काम 12.12.2023 को दिया गया। एससीसीएल वन अधिकारियों द्वारा पेड़ की गणना का कार्य और विद्युत लाइनों की शिपिंग पूरी की गई। स्तरों का अंकन प्रगति पर है।</li> </ul> <p><b>ईओडी :</b> 2026–27</p>
आरजी ओसी 3 (6 सीएचपी)	5.00	<p><b>नवंबर, 24 तक कार्यों की स्थिति</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>कंक्रीट का काम –50%</li> <li>सिविल कार्य— 50%</li> <li>सुदृढीकरण स्टील वर्क्स—62%</li> <li>स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन—55%</li> <li>स्ट्रक्चरल स्टील असेंबलिंग—36%</li> </ul> <p><b>ईओडी :</b> अगस्त— 2025</p>

## 7. एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति सितंबर, 2022 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने, लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और विश्व के शीर्ष 25 देशों में शामिल होने के लिए देश के लॉजिस्टिक्स निष्पादन में सुधार करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में अवसंरचना के कारक के रूप में लॉजिस्टिक्स लागत, मालसूची में लागत, प्रणालियों और विनियमों को शामिल करते हुए “दक्ष लॉजिस्टिक्स के लिए क्षेत्रीय योजना” तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

कोयला क्षेत्र के संदर्भ में, आर्थिक क्षेत्र एक तरफ कोयला खाने हैं और विद्युत संयंत्रों, इस्पात विनिर्माण इकाइयों, इस्पात, एल्यूमीनियम, उर्वरक, सीमेंट, विनिर्माण इकाइयों आदि सहित बड़े उपभोक्ता हैं।

कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2027 तक 1.3 बिलियन टन घरेलू कोयले का उत्पादन करने और वित्त वर्ष 2030 तक 1.5 बिलियन टन का लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाया जा सके और आयातित कोयले को स्थानीय रूप से खनित किए गए कोयले से प्रतिस्थापित करके भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाई जा सके। अनुमानित कोयले की मांग को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा निकासी अवसंरचना अनुमानित कोयले की मांग को इष्टतम रूप से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है और एक चुनौती पेश कर सकती है। कोयला निकासी के सभी परिवहन साधनों में उपलब्ध मौजूदा लॉजिस्टिक्स अवसंरचना का एकीकृत तरीके से पुनर्मूल्यांकन करना और भावी अवसंरचना के संधारणीय विकास के लिए योजना बनाना अनिवार्य था जो विभिन्न माध्यमों की शक्तियों का लाभ उठाता है जिससे राष्ट्रीय स्तर पर कोयले की आवाजाही की कुल लॉजिस्टिक्स लागत को अनुकूलित किया जा सके।

तदनुसार, वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर कोयले की माल

दुलाई के लिए उद्गम-गंतव्य अध्ययन के लिए एक व्यापक उपयोग शुरू किया गया है, संकुलन विश्लेषण किया गया था और वर्तमान में प्रचालनरत सभी ब्लॉकों के लिए रेलवे अवसंरचनात्मक अंतरालों की पहचान की गई थी और देश की व्यस्ततम उत्पादन आवश्यकता के लिए प्रचालनात्मक किए जाने का भी प्रस्ताव है।

यह प्रक्रिया इस्पात मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, रेल मंत्रालय, सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, नीति आयोग और डीपीआईआईटी के स्टेकहोल्डरों के साथ निकट परामर्श से की गई है। इस व्यापक प्रक्रिया के आधार पर, रेलवे मंत्रालय और कोयला मंत्रालय ने संयुक्त रूप से 38 महत्वपूर्ण अवसंरचना अंतराल परियोजनाओं को अभिनिर्धारित किया है। ऐसी परियोजनाओं को कोयला लॉजिस्टिक्स कार्य योजना में शामिल किया गया है।

कोयला निकासी के लिए प्रौद्योगिकीय रूप से सकाम, एकीकृत, लागत प्रभावी, लचीला, संधारणीय और विश्वसनीय लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दृष्टि से लॉजिस्टिक्स नीति और योजना बनाई गई है। इस कार्यनीतिक ढांचे का उद्देश्य वित्त वर्ष 2030 में कोयला क्षेत्र की त्वरित मांग और आपूर्ति को बढ़ावा देना है। कोयला लॉजिस्टिक्स नीति और एकीकृत कोयला कार्य योजना दिनांक 29.02.2024 को शुरू की गई थी।

इस एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति के परिणाम निम्नानुसार होंगे –

- क) वित्त वर्ष 2030 तक 1.5 बि.ट. का कोयला उत्पादन
- ख) खानों से कोयले के सड़क परिवहन को समाप्त करने के एकीकृत दृष्टिकोण के साथ कोयले की 90% मशीनीकृत हैंडलिंग के लिए अवसंरचना का विकास करना और ‘फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी’ परियोजनाओं के अंतर्गत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लोडिंग प्रणालियों के उन्नयन के लिए कदम उठाए गए हैं। रैपिड लोडिंग सिस्टम वाले कोल हैंडलिंग प्लाट (सीएचपी) और साइलो कोयला क्रशिंग, साइजिंग और तेजी से कंप्यूटर-एडेड लोडिंग जैसे लाभ प्रदान



करते हैं। इसे देखते हुए, लगभग 30000 करोड़ रुपये की लागत वाली 102 एफएमसी परियोजनाओं, 1040 एमटीपीए की क्षमता की योजना बनाई गई है। वर्तमान में, 384 एमटीपीए की क्षमता वाली 39 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। शेष को वित्त वर्ष 2029 तक शुरू किया जाना है।

- ग) 38 महत्वपूर्ण अंतराल वाली रेल परियोजनाओं की पहचान की गई है। रेलवे मंत्रालय द्वारा अपनी दीर्घावधिक कार्य योजना में इन सभी परियोजनाओं को शुरू किया गया है।
- घ) वित्त वर्ष 2030 तक कोयले की 86% रेल निकासी को ध्यान में रखते हुए कोयला निकासी आवश्यकता को पूरा करने के लिए 100000 की अतिरिक्त वैगनों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। रेलवे मंत्रालय ने कोयला निकासी के लिए इन वैगनों की खरीद शुरू कर दी है।
- ड) कोयले का तटीय संचलन कोयले की लागत की ढुलाई को 40 मि.ट. प्रति वर्ष के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर लगभग 120 मि.ट. प्रति वर्ष करने की दृष्टि से रेलवे अवसंरचना की महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की गई है। यह मुख्य रूप से कटक में रेल-ओवर-रेल और कटक-पारादीप रेलवे लाइन की 4-लाइनिंग है। रेलवे मंत्रालय ने इन्हें योजना में शामिल किया है। पारादीप, धामरा और गंगावरम पत्तन के पत्तन प्राधिकरण भी अपनी कोयला हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाने के उपाय कर रहे हैं।

च) अंतर्रेशीय जलमार्गों का विकास: ब्राह्मणी और महानदी नदियों में राष्ट्रीय जल मार्ग 5 को विकास के लिए चिन्हित किया गया है। भारतीय अंतर्रेशीय जल मार्ग प्राधिकरण, ओडिशा सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) का गठन कर रहे हैं जो तलचर कोयला क्षेत्रों से पारादीप बंदरगाह तक कोयले के परिवहन के लिए जल मार्ग विकसित करेगा।

छ) स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड— कोयला मंत्रालय ने स्मार्ट कोल एनालिटिक्स डैशबोर्ड अर्थात् कोयला उत्पादन, मांग और लॉजिस्टिक्स पर रीयल-टाइम रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स के लिए केंद्रीकृत मंच विकसित करने की योजना बनाई है। कोयला मंत्रालय सेवा प्रदाता को कार्य सौंपने की प्रक्रिया में है।

एकीकृत कोयला लॉजिस्टिक्स योजना और नीति का प्रभाव निम्नानुसार होगा—

- i) वित्त वर्ष 30 में रेल का शेयर बढ़ाकर 87% किया जाएगा।
- ii) सड़क परिवहन के शेयर में कमी
- iii) रेल लॉजिस्टिक्स लागत में 14% की कमी
- iv) लागत बचत: प्रति वर्ष 21,000 करोड़ रुपये
- v) 100,00 टन सीओ<sub>2</sub> प्रति वर्ष से कम सीओ<sub>2</sub> उत्सर्जन औसत टर्न-अराउंड समय में 10% बचत
- vi)